



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 234) पटना, सोमवार, 28 मार्च 2016

सं0 08/आरोप-01-277/2014, सां0प्र0-17118

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

12 दिसम्बर 2014

श्री राजयनंद बार्डियार, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक-814/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, सोनपुर, सारण सम्प्रति सहायक निदेशक, आई०सी०डी०एस०, निदेशालय पटना के विरुद्ध कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-1691, दिनांक 11.05.2009 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ।

प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर श्री बार्डियार से विभागीय पत्रांक-7548, दिनांक 31.07.2009 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री बार्डियार ने अपने स्पष्टीकरण जो दिनांक 28.08.2009 को विभाग को प्राप्त हुआ में मूल रूप में अंकित किया है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के कारण उनके विरुद्ध आरोप भेजा गया था। उनके द्वारा गोपनीय अभियुक्ति नहीं भेजी गयी थी जिसकी सूचना उन्होंने अपने पत्रांक-28, दिनांक 31.01.2009 से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को दी थी। आरोपित पदाधिकारी का यह भी कहना है कि उक्त तिथि को वे अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ बैठक में भाग लिये और रात्रि में स्थानीय वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लिये। उनका मोबाईल डिस्चार्ज हो गया था और दुर्घटना की सूचना उन्हें नहीं मिली थी और वे मुख्यालय के बाहर नहीं थे।

श्री बार्डियार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से मंतव्य की माँग की गयी परन्तु अनेकों स्मारोपरांत मंतव्य अप्राप्त रहा।

आरोप एवं आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर थे साथ ही असामान्य परिस्थिति में उनकी खोज की गयी थी तो उनका मोबाईल स्वीच ऑफ था साथ ही अपने वरीय पदाधिकारी पर द्वेषवश आरोप लगाने की बात अंकित करना श्री बार्डियार का अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है।

तद्आलोक में श्री राजयनंद बार्डियार, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक-814/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, सोनपुर, सारण सम्प्रति सहायक निदेशक, आई०सी०डी०एस०, निदेशालय पटना को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष के प्रभाव से)

(ii) प्रोन्नति पर एक वर्ष के लिए रोक (संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी)

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 234-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>